



रायपुर | योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) तीन सौ से ज्यादा सीटों पर विजयी होगा तथा चुनाव के बाद कांग्रेस टूट जागी।

बाबा रामदेव ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना जाने के बाद राजग को देश में भारी बढ़त मिलेगी तथा मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार बनागी। उम्मीद है कि नडी को लोकसभा चुनाव में तीन सौ से ज्यादा सीटें मिलेगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली नडी के आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में विजयी होने के बाद कांग्रेस टूट जागी तथा वह सिर्फ इतिहास रह जागी।

योग गुरु ने कहा कि देश में नडी के पक्ष में माहौल बनने के बाद से घबराई कांग्रेस ने उन्हें (बाबा रामदेव), गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को परेशान करना शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी को अपराधी और आतंकवादी की तरह पेश करने की कोशिश की जा रही है। वहीं मुझे कषयंत्र के तहत लंदन के हवाई अड्डे पर रोक गया और आठ घंटे पूछताछ की गई।

बाबा रामदेव ने कहा कि मुगलों ने 60 हजार सालों में देश को उतना नहीं लूटा जितना कांग्रेस ने अपने 60 सालों के शासन काल में लूटा है। कांग्रेस की नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है।

उन्होंने दागी नेताओं को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा बना गये अध्यादेश को लेकर कहा कि पहले इस अध्यादेश को प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के द्वारा पारित किया गया था। लेकिन कांग्रेस के शहजादे के कारण इसे वापस लेने का फैसला किया जा रहा है।

(भाषा)